



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 12—मार्च 18, 2011 (फाल्गुन 21, 1932)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 12—MARCH 18, 2011 (PHALGUNA 21, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	75	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *	
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	213	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित और होते हैं)...	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	5	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	493	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	627
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	749
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	125
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

Part I—Section 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.....	75	than the Administration of Union Territories).....	*
Part I—Section 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	213	Part II—Section 3—Sub-Section (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
Part I—Section 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	5	Part II—Section 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
Part I—Section 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	493	Part III—Section 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.....	627
Part II—Section 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	Part III—Section 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	*
Part II—Section 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	Part III—Section 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
Part II—Section 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	Part III—Section 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	749
Part II—Section 3—Sub-Section (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	Part IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.....	125
Part II—Section 3—Sub-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		Part V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
 [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2011

संकल्प

सं. फा. 4(1)/2008-हिन्दी--मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन के फलस्वरूप इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गठन संबंधी समसंख्यक संकल्प दिनांक 16 नवम्बर, 2009 के आंशिक आशोधन में, सरकारी सदस्य शीर्ष में निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाता है :--

1. संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्याक्ष
तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
2. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, सदस्य
लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री
तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
3. योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय उपाध्यक्ष
कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और
प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी
विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और वेतन तथा लेखा कार्यालय, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

आर. सी. ख्वाजा
संयुक्त सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 फरवरी 2011

शुद्धि-पत्र

सं. ई-11013/3/2009-हिन्दी--सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मंत्री द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, इस

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के संबंध में इसके दिनांक 08 जुलाई, 2010 के समसंख्यक संकल्प के पुनर्गठन शीर्षक के अंतर्गत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री पढ़ा जाए।

इस शुद्धि-पत्र को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कराया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धि-पत्र की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धि-पत्र को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अरविन्द कुमार
संयुक्त सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2011

संकल्प

सं. 12019/7/2005-एफ.पी.पी.--उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) का यूरिया इकाइयों की नई मूल्य-निर्धारण योजना को प्रशासित करने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के दिनांक 13.03.2003 के संकल्प सं. 12019/5/98 एफपीपी द्वारा पुनर्गठित किया गया था। एफआईसीसी में उद्योग सदस्य के रूप में राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) से श्री यू. एस. झा के सेवा-निवृत्त होने से उत्पन्न रिक्ति तथा श्री के. एस. राजू, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (एनएफसीएल) का दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप, सार्वजनिक क्षेत्र से श्री आर. जी. राजन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (आरसीएफ) को सदस्य (उद्योग) तथा निजी क्षेत्र से श्री ए. सी. मुथैया, अध्यक्ष, साउदर्न

पेट्रो-केमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसपीआईसी) को सदस्य (उद्योग) के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

2. एफआईसीसी में सार्वजनिक क्षेत्र से उद्योग सदस्य के रूप में श्री आर. जी. राजन, सीएमडी, आरसीएफ तथा निजी क्षेत्र से सदस्य (उद्योग) के रूप में श्री ए. सी. मुथैया, अध्यक्ष, स्पिक की नियुक्ति इस संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, से प्रभावी होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को सूचना के लिए भेजी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

दीपक सिंघल
संयुक्त सचिव

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2011

सं. 1/3/2010-पीडी--सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के प्रयोजनार्थ, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी निकाय का दिनांक 17 दिसम्बर, 2010 से 16 दिसम्बर, 2013 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया है तथा इसमें निर्मांकित सम्मिलित होंगे :--

1. प्रो. एस. के. ब्रह्मचारी, अध्यक्ष
महानिदेशक,
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्,
अनुसंधान भवन,
2, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001
2. सुश्री सुषमा नाथ, सदस्य-वित्त
सचिव (व्यय),
वित्त मंत्रालय,
नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001
3. डॉ. गिरिश साहनी, सदस्य
निदेशक,
सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान,
सेक्टर-39ए,
चण्डीगढ़-160036
4. प्रो. इन्द्रनील मन्ना, सदस्य
निदेशक,
केन्द्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान,
196, राजा एस. सी. मलिक रोड,
कोलकाता-700032 (पश्चिम बंगाल)

5. सुश्री अनुराधा आचार्य, सदस्य
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
ओसिमम बायोसॉल्यूशन लि.,
छठवां तल, रिलायंस क्लासिक रोड नं. 1,
बंजारा हिल्स,
हैदराबाद-500034 (आंध्र प्रदेश)

6. श्री बी. पी. राव, सदस्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.,
“बीएचईएल हाऊस”
सीरी फोर्ट,
नई दिल्ली-110049

7. प्रो. एम. विजयन, सदस्य
मानद प्रोफेसर/प्रतिष्ठित जैव प्रौद्योगिकविद,
मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स यूनिट,
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस,
बेंगलूरु-560012 (कर्नाटक)

8. श्री एच. एम. नेरूरकर,
प्रबंध निदेशक,
टाटा स्टील लि.,
जमशेदपुर-831001 (झारखंड)

9. डॉ. अमित मित्रा, सदस्य
महासचिव,
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स
एंड इंडस्ट्री,
फेडरेशन हाऊस,
तानसेन मार्ग,
नई दिल्ली-110001

10. डॉ. टी. रामासामी, सदस्य
सचिव,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग,
टेक्नोलॉजी भवन,
न्यू महरौली रोड,
नई दिल्ली-110016

11. डॉ. के. राधाकृष्णन, सदस्य
अध्यक्ष,
इसरो एवं अध्यक्ष, अंतरिक्ष आयोग एवं
सचिव, अंतरिक्ष विभाग,
अंतरिक्ष भवन, न्यू बीईएल रोड,
बेंगलूरु-560094 (कर्नाटक)

के. जयकुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 23rd February 2011

No. 4(1)/2008-Hindi—Consequent upon the change in portfolios of Ministers, in partial modification of notification of even number dated 16th November, 2009 regarding constitution of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry, Official Members would be as under :—

- | | |
|--|---------------|
| 1. Minister of Parliamentary Affairs,
Science and Technology and Earth
Sciences | Chairman |
| 2. Minister of State in the Ministry of
Parliamentary Affairs, Minister of State
in the Ministry of Personnel, Public
Grievances and Pensions and Minister
of State in the Prime Minister's
Office | Member |
| 3. Minister of State in the Ministry of
Planning, Minister of State in the
Ministry of Parliamentary Affairs,
Minister of State in the Ministry of
Science and Technology and Minister of
State in the Ministry of Earth Sciences | Vice-Chairman |

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territory Administrations, All Ministries and Departments of the Government of India, President Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Lok/Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India and Pay and Accounts Office, Cabinet Affairs, New Delhi.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

R. C. KHWAJA
Jt. Secy.

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME
IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 21st February 2011

CORRIGENDUM

No. E-11013/3/2009-Hindi—Consequent upon assuming the charge of Minister of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, the Minister of State for Statistics and Programme Implementation (Independent Charge) may be read as Minister for Statistics and Programme Implementation under the heading Reconstitution of this Ministry's Resolution of even number dated 8th July, 2010 regarding reconstitution the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

The corrigendum may be notified in the Gazette of India.

ORDER

Ordered that a copy of this Corrigendum be sent to all State Governments, Union Territory Administrations, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and All Ministries/Departments of Government of India.

It is also ordered that this Corrigendum be published in the Gazette of India for general information.

ARVIND KUMAR
Jt. Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 22nd February 2011

RESOLUTION

No. 12019/7/2005-FFP—The Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) was reconstituted vide Ministry of Chemicals and Fertilizers' Resolution No. 12019/5/98-FFP dated 13.3.2003 to administer and operate the New Pricing Scheme for urea units. Consequent to vacancy arising from retirement of Shri U. S. Jha, from Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited (RCF), as Industry Member and completion of tenure of two years of Shri K. S. Raju, Chairman and Managing Director, Nagarjuna Fertilizers & Chemicals Ltd., (NFCL), it has been decided to appoint Shri R. G. Rajan, Chairman and Managing Director, (RCF) as member (Industry) from the Public Sector and Shri A. C. Muthaiah, Chairman, Southern Petrochemicals Industries Corporation Ltd., (SPIC) as Member (Industry) from Private Sector of the FICC.

2. The appointment of Shri R. G. Rajan, CMD, RCF as Industry Member from Public Sector and Shri A. C. Muthaiah, Chairman, SPIC as Member (Industry) from Private Sector in FICC will be effective from the date of issue of the Resolution and for a period of two years or until further orders, whichever is earlier.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat and the Ministries and Department of the Government of India concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

DEEPAK SINGHAL
Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL
RESEARCH
(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi, the 22nd February 2011

No. 1/3/2010-PD—It is notified for general information that for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860), the Governing Body of the Council of Scientific & Industrial Research has been reconstituted for a period of three years with effect from 17th December, 2010 to 16th December, 2013 and shall consist of the following :—

- | | | |
|---|--------------------------------|--------|
| 1. Prof. S. K. Brahmachari
Director General
Council of Scientific & Industrial
Research
Anusandhan Bhawan
2, Rafi Marg
New Delhi-110001 | Chairman
(Ex-Officio) | |
| 2. Ms. Sushma Nath
Secretary (Expenditure)
Ministry of Finance
North Block
New Delhi-110001 | Member Finance
(Ex-Officio) | |
| 3. Dr. Girish Sahni
Director
Institute of Microbial Technology
Sector-39A
Chandigarh-160036 | Member | |
| 4. Prof. Indranil Manna
Director
Central Glass & Ceramic Research Institute
196, Raja SC Mullick Road
Kolkata-700032 (West Bengal) | Member | |
| 5. Ms. Anuradha Acharya
Chief Executive Officer
Ocimum Biosolutions Limited
6th Floor, Reliance Classic Road No. 1
Banjara Hills
Hyderabad-500034 (Andhra Pradesh) | Member | |
| 6. Shri B. P. Rao
Chairman & Managing Director
Bharat Heavy Electricals Limited
“BHEL House”
Siri Fort
New Delhi-110049 | | Member |
| 7. Prof. M. Vijayan
Honorary Professor/
Distinguished Biotechnologist
Molecular Biophysics Unit
Indian Institute of Science
Bangaluru-560012 (Karnataka) | | Member |
| 8. Shri H. M. Nerurkar
Managing Director
Tata Steel Limited
Jamshedpur-831001 (Jharkhand) | | Member |
| 9. Dr. Amit Mitra
Secretary General
Federation of Indian Chambers of
Commerce & Industry
Federation House
Tansen Marg
New Delhi-110001 | | Member |
| 10. Dr. T. Ramasami
Secretary
Department of Science & Technology
Technology Bhawan
New Mehrauli Road
New Delhi-110016 | | Member |
| 11. Dr. K. Radhakrishnan
Chairman
ISRO & Chairman Space Commission &
Secretary, Department of Space
Antariksh Bhavan, New BEL Road
Bangaluru-560094 (Karnataka) | | Member |

K. JAYAKUMAR
Jt. Secy.